

Class Notes

Class: पाँचवीं

Topic: पाठ-8

Subject: हिंदी

वे दिन भी क्या दिन थे

पाठ-8

वे दिन भी क्या दिन थे



शब्दार्थ-

1. पृष्ठ = पन्ना
2. स्थिर = बिना हिले डुले
3. सामग्री = सामान, चीज़ें
4. नियमित = नियम के अनुसार
5. भिन्न = अलग
6. आयु = उम्र
7. पुर्जे -पुर्जे = हर एक हिस्सा
8. उत्सुकता = प्रबल इच्छा, अधीरता
9. गति = रफ़्तार
10. सबक = पाठ
11. संभव = मुमकिन
12. विशेष = खास

प्रश्न 1-कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी?

उत्तर- कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी , वह आज के ज़माने में की छपी हुई होगी।

प्रश्न 2- रोहित ने कहा था, "कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई"। क्या सचमुच में ऐसा होता है?

उत्तर- ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद पुस्तकें बेकार हो जाती हैं। किताबें एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के हाथों में जाकर उसके ज्ञान का स्रोत बनती हैं। जिसके कारण कई लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। यदि ऐसा होता तो आज जगह-जगह पर पुस्तकालयों का निर्माण नहीं होता।

प्रश्न 3-कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब तुम इनमें से किसको पसंद करोगे? क्यों?

उत्तर- हम कागज़ के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने तथा इधर-उधर ले जाने में भी आसानी रहेगी। उसमें अक्षर भी स्थिर होते हैं ।

प्रश्न 4- तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो। पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस-किस चीज़ पर हुआ करती थी?

उत्तर- कागज़ से पहले की छपाई लकड़ी, पत्तों तथा धातु के बने पत्रों पत्थर आदि पर हुआ करती थी।

निर्देश :- उपरोक्त लेखन सामग्री अपनी व्याकरण उत्तरपुस्तिका में लिखें ।
यह लेखन सामग्री घर पर रहकर तैयार की गई है ।